

Date: 09.01.2019

The Manager
Department of Corporate Relationship
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower
Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: 511714 Scrip ID: NIMBSPROJ

Sub: - Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosures Requirements) Regulations, 2015 Submission of Copies of Newspapers Clipping of Postal ballot Notice & E-Voting Information

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit the copies of newspaper advertisements for Postal Ballot Notice published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers on Wednesday, January 09, 2019 *interalia* information about the dispatch of Postal Ballot Notice dated 28th December, 2018, e-voting facility offered to the Members of the Company, Cut- off Date and matter related thereto.

The same is also made available on website of the Company i.e. www.nimbusprojectsltd.com.

Kindly, take the same on records and acknowledge receipt of the same.

Thanking You, Yours faithfully,

For Nimbus Projects Limited

Lalit Agarwal

(Company Secretary & Compliance Officer)

M.No.: F5902

Encl. as above

TRADE TURF

US-China talks near close with positive signs from both sides

BLOOMBERG Beijing, January 8

AUTHORITIES CHINESE PLANNED to give a statement following the latest round of US trade talks on Tuesday in Beijing, after both sides signaled progress toward resolving a conflict that has rolled markets.

"The talks are still underway and I believe we will release a detailed readout after they are concluded," Chinese foreign ministry spokesman Lu Kang told reporters at a regular briefing on Tuesday in Beijing. No timing was given and it wasn't immediately clear if the US would release a statement.

US commerce secretary Wilbur Ross expressed optimism on Monday, telling CNBC that "there's a very good chance that we'll get a reasonable settlement". Vice-premier Liu He made an appearance at the talks on Monday in a sign the Chinese were also pushing for a positive outcome.

Liu, the chief economic adviser to Chinese President Xi Jinping, madebrief remarks at the negotiations, a person familiar with the meeting said. Asked abouthis presence on Tuesday, Lufrom the foreign ministry said it wasn't surprising for Liu to be there. Liu led a previous round of

BLOOMBERG

newentrants.

London, January 8

WHEN EUROPEAN LAWMAK-

ERS ushered in the era of "open

banking"for consumers one year

ago, both lenders and financial

technology start-ups expected a

sea change. For the first time,

bankswouldbe required to share

accountdata with competitors as

long as customers gave their per-

mission. Politicians in the UK,

wherefour banks control 75% of

deposits, were particularly keen

on the law's goal of encouraging

implemented the rules, dubbed

Payment Services Directive 2,

January 13 last year, banking in

the UK looks pretty much the

same. HSBC Holdings, Bardays,

Royal Bank of Scotland Group

and Lloyds Banking Group show

few signs of losing significant

market share on current

accounts, business loans, and

mortgages to the upstarts. Only

four new banking licences were

issued in 2018, compared with

12 in 2017, according to the

hockey stick of growth in disrup-

tive new players everybody was

predicting," saidAnne Boden, the

founder and chief executive offi-

cer of Starling Bank, a London-

based digital bank with 400,000

account holders." Everybody was:

expecting PSD 2 to happen and all

these companies would be fight-

ing with each other to provide

the longstanding lenders, con-

tinue to control the payment

infrastructure. Indeed, these

institutions are starting to go on

theoffensive by snapping up fin-

tech firms. On December 27,

Visa's international subsidiary

agreed to buy London-based

cross-border payments firm

Earthportfor£198million(\$252

today shows that bankers at Bar-

days, RBS, and other lenders are anxious that in time the new pay-

ments law will shake up the

industry. In a survey of 50 execu-

tives in Britain, a majority said the

legislation will spur technology

giants such as Amazon.com and

Google to unveil their own retail

banking services within the next

polled say their organisations

are falling behind mobile bank-

ing players such as Monzo

Bank, Starling Bank, and Revo-

lut. The research was commis-

sioned by Pepper, a mobile bank

owned by Tel-Aviv-based Bank

ulators are scheduled to com-

plete new technical standards that will set out precisely how

banksmustlinktheirtechnology

platforms to outsiders. The hope

is this process will truly cement

In September, European reg-

Leumi Le-Israel.

More than 82% of those

Even so, research released

million).

five years.

Mastercard and Visa, as well as

services to customers."

"The UK still hasn't seen the

Financial Conduct Authority.

Butsince the European Union

One year into 'open

revolution still not here

banking', fintech



talks in Washington last year that ended in failure, and he's expected to meet chief US negotiator Robert Lighthizer later this month. Since the two presidents met on December 1, China has made a number of concessions to US demands, including temporarily cutting punitive tariffs on US-made cars, resuming soybean purchases, promising to open up its markets for more foreign investment, and drafting a law to prevent forced technology transfers.

How China will enforce those measures will be key to any deal. US officials have repeatedly accused China of not fulfilling agreements, with Ross saying on Monday that "the real issue is what are the enforcement mechanisms, what are the punishments if people don't do

open banking into place, said

asked to do is very difficult —they

don't necessarily have a commer-

dialreason to do this, they're being

forced to by a regulatory big stick,"

said Boden. "But Idobelieve PSD 2

and open banking will revolu-

tionise the relationship between

consumers and lenders. It just

NOTICE

BENARES HOTELS LIMITED

CIN No.: L55101UP1971PLC003480

Vebsite: www.benareshotelslimited.com

Regd. Office: Nadesar Palace Compound,

Varanasi - 221 002.

Tel: 0542 - 6660001

Email:investorrelations@tajhotels.com

NOTICE is here by given pursuant to Regulation.

29 ead with Regulation 47 of the SEBI Listing

Obligations and Disdosure Requirements)

Regulations, 2015, that a meeting of the Board of

Directors of the company is scheduled to be held

on Friday, January 25, 2019, inter-alia, to consider

and take on record the Unaudited Financial Results.

of the Company for the quarter/mine months ended

December 31, 2018. This information is also

available on the Company's website

www.benareshotelslimited.com and also on the

for Benares Hotels Limited

website of BSE Ltd. www.bseindia.com

Dated: 08.01.2019

SI. No.

won't happen quickly."

"What big banks have been

Starling's Boden.

The US negotiators in Beijing are pushing the Chinese side to come up with a mechanism to ensure that Beijing keeps the promises it makes, the Wall Street Journal reported.

That includes giving specific

dates for making purchases,

and making assurances that

what they were supposed to do?"

Beijing won'thinder US companies from gaining access to China's market.

Six months after President Donald Trump first slapped tariffs on Chinese goods, signs are growing that the trade war is exacting an economic and financial cost, increasing the incentive for both sides to end the conflict.

FORM G - REVISED 1

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

Apple cutits revenue outlook last week as sales of the iPhone were slower than expected in China, whiledataonfactoryactivityand retail sales in the Asian nation were also weak. Liu's appearance at the talks

isa "symbol of Xi's personal buyin" in the effort to reach a deal, said Leland Miller, chief executive officer of China Beige Book, a data-analytics firm that surveys companies across the Chinese economy." Beijing wants to show this is supported at the very highest level."

But much work remains before the two economic powers climb down. Trump has given US trade representative Lighthizer until March 1 to negotiate an accord with the Chinese on "structural changes" to Beijing's state-driven economic model.

	RELEVANT	T PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor	B.K. Coal Fields Private Limited (BKCFPL- Corporate Debtor)	
2.	Date of incorporation of corporate debtor	20/04/2001	
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Delhi	
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U10102DL2001PTC110495	
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporatedebtor	10, Masjid Moth Greater Kailash-II New Delhi -110048 INDIA	
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	07.06.2018 (Appointment of RP on 25.09.2018) CIRP timelines extended by 90 days under Hon'ble NCLT order dt. 13.12.2018	
7.	Date of invitation of expression of interest	09.01.2019 (Original Form G issued on 27.10.2018)	
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	The information from Resolution Professional can be sought at	
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	following e mail id:-bkcoalfields.rp@gmail.com	
10.	Last date for receipt of expression of interest	24.01.2019 (Under Original Form G- 11.11.2018)	
11,	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	03.02.2019 (Under Original Form G- 21.11.2018)	
12.	Last date for submission of objections to provisional list	08.02.2019(Under Original Form G- 26.11.2018)	
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	18.02.2019(Under Original Form G- 06.12.2018)	
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	08.02.2019 (Under Original Form G -26.11.2018)	
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Request for Resolution Plan (RFRP), Evaluation Matrix and Information Memorandum (IM) shall be available through following E mail id from Resolution Professional:bkcoalfields.rp@gmail.com The RFRP, Evaluation Matrix and IM shall be obtained after giving undertaking of confidentiality under Section 29(2) of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.	
16.	Last date for submission of resolution plans	10.03.2019 (Under Original Form G- 26.12.2018)	
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Resolution Plan shall be submitted in a sealed cover at following address:	
		ARUN GAJWANI Resolution Professional for BKCFPL- Corporate Debtor 10, Masjid Moth, Greater Kallash 11, New Delhi -110 048 INDIA	
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	09.04.2019 (Under Original Form G- 25.01.2019)	
19.	Name and registration number of the resolution professional	ARUN GAJWANI IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724	
20.	Name, Address and e-email of the resolution professional,	ARUN GAJWANI	

Resolution Professional

Resolution Professional

ARUN GAJWANI

DESCRIPTION & OWNER OF PROPERTY

Email:arungaj572@gmail.com

Email: bkcoalfields.rp@gmail.com

Original on 27.10.2018Revised on 09.01.2019 For B.K. Coal Fields Private Limited ARUN GAJWANI Resolution Professional IBBI/IPA-002/IP-N00568/2017-18/11724 In the matter of B.K. Coal Fields Private Limited (BKCFPL)

B-572, Sainik Colony, Sector-49, Faridabad, Pin-121001, Haryana

10, Masjid Moth Greater Kailash-II New Delhi -110048 INDIA

Further information can be obtained from Resolution Professional

through following Email Id:Email: bkcoalfields.rp@gmail.com

Regd Add: B-572, Sainik Colony, Sector-49, Faridabad, PIN - 121001, Haryana Email: bkcoalfields.rp@gmail.com Phone: +919810549696

Reserve Price

Bid Increase Amount

Vanika Mahajan

Company Secretary

Corporation Bank

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

LAS	T DAT	ETIM	E OF	SUBM	ISSIO	N OF	EM	D
AND	DOC	JMENT	S 11.	02.201	9 UP	TO 5	:00 F	M
BURGO	MADIEN	MAN DIE	DDODE	DTV MOI	DTOACE	n To I	DAKIN	LIMIT

NAME OF THE BORROWER AND GUARANTOR

as registered with the Board

resolution professional

23. Date of publication of Form G

22. Further Details are available at or with

Address and email to be used for correspondence with the

DATE OF E-AUCTION - 12.02.2019 AT 11:45 AM TO 1:15 PM

SALE OF IMMOVABLE/MOVABLE PROPERTY MORTGAGED TO BANK UNDER SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST (SARFAESI) ACT, 2002 (NO.54 OF 2002) WHEREAS, THE AUTHORIZED OFFICER OF CORPORATION. BANK HAD TAKEN POSSESSION OF THE FOLLOWING PROPERTY PURSUANT TO THE NOTICE ISSUED UNDER SEC 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST (SARFAESI) ACT, 2002 IN THE FOLLOWING LOAN ACCOUNTS WITH OUR BRANCH WITH A RIGHTTO SELL THE SAME ON "AS IS WHERE IS BASIS AND AS IS WHAT IS BASIS" FOR REALIZATION OF BANK'S DUES. THE SALE WILLBEDONE BY THE UNDERSIGNED THROUGHE-AUCTION PLATFORM PROVIDED ATTHEWEBSITE: HTTPs://BANKAUCTIONS.IN

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES

1.	Borrower: M/s. At - Nafees Frozen Food Exports Pvt. Ltd. 6, Central Lane ALL THAT PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE PROPERTY	Rs. 12,69,00,000/-
	Bergali Market, New Delhi SITUATED ATM-18, MIDC, TALOJA INDUSTRIAL AREA, NAVID	Rs. 1,26,90,000/-
	Guarantor: 1. Mohd. Alif Qureshi, S/o Mohd Mustageem, 2. Mohd Nafees Qureshi, S/o. Late Haji Sirajuddin Qureshi 3. Mohd Mougeem Qureshi, S/o Late Haji Sirajuddin 4. Mohd. Mustageem Qureshi S/o Late Haji Sirajuddin 5. UNDER: NORTH: SUMARAJINDUSTRIALUNIT Mohd. Musharafeen Qureshi, S/o Late Haji Sirajuddin 6. Mohd Saleem Qureshi, S/o Late Haji Sirajuddin 7. Arham Qureshi S/o Mohd Mustageem 8. EAST: KHEMAGAON Simi Tamkeen Kosar W/o Mohd Mustagueem Qureshi 9. Al-tamash Exports P Ltd. Represented By its Director Mohd. Mustageem Qureshi. 10. Wis M S M 8. OWNED BY M/S, PRESTIGE FOOD EXPORTS	Rs. 1,00,000/-
	Co. Represented By its Partners, 1. Mr. Mohammed Mustageen Qureshi, 2. ALL THAT PIECE AND PARCEL OF IMMOVABLE PROPERTY	Rs. 14,17,00,000/-
	INII. NOIISIMINEU NIUSIMAREIN QUIESIII, J. NII. NIOIISIMMEU NIUQESIII QUIESIII [PITHATED AT MAA MIDA TALAAU MIDHETDUL ADEA MAMAI	Rs. 1,41,70,000/-
	and 4. Mr. Mohammed Saleem Qureshi. 11. M/s Prestige Food Export Represented By its Padners, 1. Mr. Mohammed Mustageen Qureshi, 2.Mr. SUPERSTRUCTURE CONSTRUCTED THERE ON] BOUNDED Mohammed Mushrafeen Qureshi, 3 Mr. Mohammed Mugeem Qureshi, 4. Mr. AS UNDER:	Rs. 1,00,000/-

WEST: MLDC ROAD OWNED BY MIS. AL TAMASH EXPORTS PVT LTD. Thee-Auction is being held on "AS IS WHERE IS" and "AS IS WHAT IS BASIS"

Demand Notice Issued On 10.09.2018, Outstanding Amount (secured SOUTH: VILLAGE ROAD

Mohammed Saleem Quijes hi And 5, Mrs. Tamkee'n Koser

Debt) Rs. 75,55,57,251.00 Plus Interest & Other Charges Thereon

2. The successful bidder shall at the end of the auction pay 25% of the bid amount which shall be inclusive of the bid amount immediately on the sale being knocked down in his favour and the balance within 15 days from the date of sale confirmation. Payment is to be made by RTGS/NEFT to the account of-Authorized officer, on or before 27/02/2019, on default in such payment the property shall be resold and the defauthing purchaser shall not have any claim whatsoever and the amount already paid shall be forfeited. Any statutory and of herdues payable either accrued or ansen already shall be borne by the purchaser of the property.

NORTH: PRESTIGE FOOD EXPORTS

EAST: KHEMA GAON

4. To the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on the property. However, the intending bidders should make their own independent inquines regarding the endumbrances, title of properlynes & tornspect & satisfy themselves. Properly can be inspected from 10:30 am to 5:00 pm after consultation with Authorised Officer. 5. "In the event of failure of the successful bidder to tender 25% of the sale price then and there, the EMD deposited by him shall be forferted to secured diedrifor and the bid accepted shall stand cancelled automatically"

6. The intended bidders who have deposited the EMD and require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting bid, fraining on e-bidding process etc., may contact Mis 4CLOSURE Help Line No. 040-23836405, Mr. Vikas - +91-8142000809. Help Line e-mail ID: info@bankauctions in , Vikas@bankauctions in and for any property related query may

 As per the Income Tax Rule, TDS @ rate of 1 % of Auction Price is payable by the successful auction purchaser. (FOR DETAILED TERM AND CONDITIONS PLEASE REFER TO https://bankauctions.in) and https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-pagefiles/tender/al_nafees_frozen.pdf

STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT 2002

THE BORROWER / GUARANTOR ARE HEREBY NOTIFIED TO PAY THE SUMAS MENTIONED ABOVE ALONG WITH UP TO DATE INTEREST AND ANCILLARY EXPENSES. BEFORE THE DATE OF E-AUCTION FAILING WHICH THE PROPERTY WILL BE AUCTIONED / SOLD AND BALANCE DUES IF ANY WILL BE RECOVERED WITH INTEREST. DATE: 07.01.2019, Place : Delhi



NIMBUS PROJECTS LIMITED

Regd. Office: 1001-1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23 Barakhamba Road, New Delhi - 110001 CIN - L74899DL1993PLC055470,

Email: nimbusindialtd@gmail.com, Website: www.nimbusprojectsltd.com Phone: +91-11-42878900, Fax: +91-11-41500023

POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that in accordance with the provisions of Section 110 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or any re-enactments thereof) and in terms of the applicable Secretarial Standards, the Company is seeking approval of its members by way of postal ballot including voting by electronic means (e-voting).

The Company has engaged the services of National Security Depository Limited (NSDL) for providing remote evoting to all the members of the Company.

The Company has completed the dispatch of postal ballot notice & explanatory statement dated 28" December 2018 alongwith postal ballot form and a self-addressed postage pre-paid envelope on 7th January, 2019 through speed post & registered post to the members as on cut-off date i.e. 29" December 2018, for the following business as set out in the notice of postal ballot:

Variation in the rights/ terms and conditions of unlisted 20,000,000 8% Non-Cumulative, Non-Convertible Non Participating Preference Share of Rs. 10/-each.

The facility to exercise vote by postal ballot, including e-voting, will be available during the following period: Commencement of voting : Wednesday, 9th January, 2019 at 9:00 a.m. IST

End of voting : Thursday, 7" February, 2019 at 5:00 p.m. IST

It is brought to the notice of members that:

- The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting after 5:00 p.m.on 7th February, 2019 i.e.
- Duly completed postal ballot should reach to the scrutinizer not later than the close of the business hours i.e. 5:00 p.m. on 7" February, 2019. All postal ballot forms received after 7" February, 2019 will be treated as if reply from such member(s) has not been received.
- The Board of Directors has appointed Mr. Kapil Dev Vashisth, Practicing Company Secretaries (C.P. 5458) as Scrutinizer for conducting the postal ballot process in a fair and transparent manner.
- The members who have not received the postal ballot forms may send request for a duplicate postal ballot form at the registered office of the Company at 1001 -1006, 10th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi-110001. The postal ballot notice and postal ballot form are also available on the websites www.evoting.nsdl.com and www.nimbusprojectsltd.com.
- The members of the Company holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cutoff date, i.e. 29th December 2018 may avail the facility of voting (postal ballot and e-voting). The person who is not a member of the Company on cut-off date should treat this notice for information purposes only. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the postal ballot papers and holding
- shares as on the cut-off date, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below: If e-mail address or mobile number of the member is registered against Folio No. or DP ID/ Client ID, then on the home page of www.evoting.nsdl.com the member may click "Forgot password" and enter Folio No. or DP ID/ Client ID and PAN to generate a password. Please also note that login to e-voting website
- will be disabled upon five unsuccessful attempts, ensure to key-in the correct password. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the "downloads" section of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL by mail at evoting@nsdl.co.in or call on: 1800 222 990.
- Any query / grievances connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means may be addressed to Mr. Lalit Agarwal, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at
- The results of postal ballot shall be declared at the registered office of the Company on 9th February, 2019 at 5.00 pm by the Chairman, or in his absence any other person so authorized by him. The result will be displayed at the registered office of the Company, intimated to the Stock exchange where the Company's shares are listed, published in the newspapers and displayed along with the Scrutinizer's report on the Company's website www.nimbusprojectsltd.com.

By Order of the Board of Directors For Nimbus Projects Limited

Lalit Agarwal Company Secretary & Compliance Officer Mem. No. F5902

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER-I DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-II, DELHI 4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001

RC No. 61/2016

Place: New Delhi

Date: 8" January, 2019

SALE PROCLAMATION NOTICE CORPORATION BANK V/s M/S KARVY TECHNOPLAST P. LTD.

PROCLAMATION OF SALE UNDER RULE 52(2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH THE RECOVERY OF DEBTS DUE TO BANK AND FINANCIAL INSTITUTION ACT, 1993

CD# 1 M/s Karvy Technoplast P. Ltd., through its Director Plot No. H-84, EPIP, Neemrana, Dist. Alwar, Rajasthan, Also at: G-329, 2nd & 3rd Floor, Preet Vihar, New Delhi-110095

CD#2 Sh. Navendu Babar S/o Shri Kashmiri Lal Babbar, R/o A-119, 2nd Floor, Vivek Vihar, Delhi-110095. CD#3 Ms. Monika Babbar W/o Sh. Navendu Babar S/o Shri Kashmiri Lal Babbar, R/o A-119, 2nd Floor, Vivek Vihar, Delhi-110095.

CD#4 Ms. Vilash Babbar W/o Sh. Kashmiri Lal Babbar, R/o A-119, 2nd Floor, Vivek Vihar, Delhi-110095. Whereas as per Recovery Certificate No. 61/2016 in T.A. No. 37/2015 dated 25-05-2016 Drawn by the Presiding, Officer, Debts

- Recover Tribunal-II, Delhi mentioning a sum of Rs. 7,95,82,400.00 (Rs Seven Crore Ninety Five Lacs Eighty Two Thousand Four Hundred Only), CDs are jointly and / or severally to pay the amount with interest @13% per annum until recovery with cost. 2... And whereas the undersigned has ordered the sale of property mentioned in the Schedule Below in satisfaction of the said Recovery Certificate.
- Notice is hereby given that in absence of any order of postponement, the said property shall tie sold by e-auction and bidding shall take place through "Online Electronic Bidding" through the website https://www.drtauctions.in on 08-02-2019 between 03.00 p.m. to 04.00 p.m. with extension of 5 minutes duration after 04 p.m., if required.
- 4. The sale shall be of the property of the CD(s) above-named as mentioned in the schedule the below liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained are those specified in the schedule against each lot.
- 5. The property shall be put up for the sale as specified in the schedule. If the amount to be realized by sale is satisfied by the sale of a portion of the property, the sale shall be immediately stopped with respect to the remainder. The sale will also be stopped if, before auction is knocked down, the arrears mentioned in the said certificate, interest costs (including cost of the sale) are tendered to the officer conducting the sale or proof is given to his satisfaction that the amount of such certificate, interest and costs have been paid to the
- 6. The EMD shall be paid either through Demand Draft/Pay Order in favour of "Recovery Officer-I, DRT-II, Delhi A/c RC No. 61/2016" or through NEFT/RTGS to the following account - Corporation Bank, Ghaziabad, Ramprastha Branch, Ph. 0120-2641568, 2643915, 2640385, Account No. 053400101034949, IFSC Code No. CORP0000534. The said Demand Draft / Pay Order or original proof of payment through NEFT/RTGS qua EMD, alongwith self-attested copy of Identity (Voter I-card / Driving License Passport), which should contain the address for future communication, and self-attested copy of PAN card, must reach the office of Recovery Officer-I, DRT-II, Delhi latest by 06-02-2019 before 5.00 PM. The EMD or Original Proof of EMD received thereafter shall
- 7 No officer or other person, having any duty to perform in connection with sale however, either directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the properly sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Second Schedule to the Income Tax Act, 1961 and the rules made
- thereunder and to the following further conditions:-
- 8.1 The particulars specified in the annexed schedule have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.
- 8.2 The interested bidders, who have submitted their bids not below the reserve price, alongwith documents including PAN Card, identity proof, address proof, etc., latest by 06-02-2019 before 5.00 PM in the Office of the Recovery Officer-I, DRT-II, Delhi, shall be eligible to participate in the e-auction to be held from 03.00 PM to 04.00 PM on 08-02-2019 In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will a Automatically get extended for 5 minutes.

8.3 The bidder(s) shall improve their offer in multiples of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac Only). 8.4 The unsuccessful bidder shall take the EMD directly from the Office of Recovery Officer-I, DRT-II, Delhi/CH Bank, i.e.,

- Corporation Bank, immediately on closure of the e-auction sale proceedings.
- 8.5 The Successful / highest bidder shall have to prepare Demand Draft/Pay Order for 25% of the bid/sale amount favoring Recovery Officer-I, DRT-II, Delhi, A/c R.C. No. 61/2016 within 24 hours after close of e-auction and after adjusting the EMD and send/deposit the same in the office of the Recovery Officer-I, DRT-II, Delhi so as to reach within 3 days from the close of e-Auction, failing which the EMD 8.6 The successful/highest bidder shall deposit, through Demand Draft/Pay order. Favoring Recovery Officer-I, DRT-II, Delhi, A/c
- R.C. No. 61/2016, the balance 75% of the sale proceeds before the Recovery Officer-I, DRT-II. Delhi on or before 15th day from the date of auction of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day alongwith the poundage fee @ 2% upto Rs. 1,000 and 1% on the excess of such gross amount over Rs. 1000/- in favour of Registrar, DRT-II Delhi (In case of deposit of balance amount of 75% through post the same should reach the Recovery Officer as above).
- 8.7 In case of default of payment within the prescribed period, the property shall be re-sold, after the issue of fresh proclamation of sale. The deposit, after defraying the expenses of the sale, may, if the undersigned thinks fit, be forfeited to the Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.
- The property is being sold on "AS IS WHERE IS BASIS". 10. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all bids if found unreasonable or postpone the auction at any time
- without assigning any reason. Schedule of property

T .		D'		
Description of the Property	Reserve Price	Earnest Money Deposit (EMD)	Date & Time of E-Auction	
Property bearing no. 3rd Floor of the H.No. G-329 admeasuring 104.51 sq. mtrs. Block - G, Preet Vihar, New Delhi	₹ 47,70,000/- (Rs. Forty Seven Lacs Seventy Thousand only)	₹ 4,77,000/- (Rs. Four Lacs Seventy Seven Thousand only)	08-02-2019 between 3.00 PM to 04.00 PM (With auto extension of 5 minutes duration	
2. Property bearing no. H-84, EPIP Industrial Area, Neemrana Alwar, Rajasthan	₹ 26,00,000/- (Rs. Twenty Six Lacs only)	₹ 2,60,000/- (Rs. Two Lacs Sixty Thousand only)	after 04.00 PM, if required)	
Revenue assessed upon the property or any part there				
Details of any encumbrance to which property is liable	Not Known			
Claims, if any, which have been put forward to the prope and any other known particulars bearing on its nature an				

(Shiv Kumar) Recovery Officer-I, Debts Recovery Tribunal - II, Delhi

Given under my hand and seal on this 04th day of January, 2019

Authorised Officer, Corporation Bank

सोच-विचार के बाद ही गठबंधन पर फैसला : नवीन पटनायक

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 8 जनवरी

राजनीतिक दलों के गठबंधन पर आखिरी फैसला सोच-विचार के बाद ही होगा। मंगलवार को बीज जनता दल (बीजेडी) के मुखिया व ओड़ीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उनकी पार्टी संघर्ष जारी रखेगी।

उन्होंने केंद्र सरकार से चुनावी वादे पूरे करने की मांग की। वे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कृषक अधिकार समावेश में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने किसानों के मुद्दों को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेतत्व 2014 में किसानों के वादे पुरे करने के लिए काम करे। मांगे पुरी होने तक बीजेडी किसानों के अधिकारों की लडाई जारी रखेगा। किसान विरोधी नीति के विरोध में जल्द ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन सीपा जाएगा।

बीजेडी चाहती है कि धान के न्युनतम समर्थन मृत्य को बद्धाने के वादे पर तत्काल कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि न्युनतम समर्थन मृत्य (एमएसपी) केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है। इसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बार-बार आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने चुनावी वादे को

किसानों के सवाल पर केंद्र सरकार को घेरा कहा, अधिकारों के लिए संघर्ष

जारी रखेगा बीजेडी

सरकार भूल गई है, ओड़ीशा की जनता इसका जवाब देगी। इसकी ताकत ओड़ीशा के पास है। सही वक्त पर यह जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी में इजाफा करना स्वामीनाथन समिति के अनुरूप है।

पटनायक ने कहा कि इसका लाभ राज्य के 92 फीसद राज्य को मिलेगा। धान के लिए

1750 रुपए का निर्धारित मृत्य किसानों को स्वीकार नहीं है। इसे ओड़ीशा सरकार से चर्चा किए बिना तय किया गया है। ओड़ीशा सरकार ने राशि को 2930 रुपए प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है, इसका सीधा लाभ किसानों

उन्होंने कहा कि ओड़ीशा सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई योजनाएं लागु की है। इसके तहत सरकार ने 10180 करोड़ रुपए इस मद के लिए निर्धारित किया है। इन योजनाओं के तहत छोटे, सीमांत व भूमिहीन किसानों को बीमा योजना के साथ-साथ वित्तीय व आजीविका सहायता उपलब्ध कराएगी। ओड़ीशा एक कृषि प्रधान राज्य है और धान राज्य की प्रमुख फसल है। राज्य में करीब 40 लाख हेक्टेयर में यह खेती की जाती है। इसलिए किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को तत्काल काम करने की जरूरत है।

इस सम्मेलन में बीजद सांसद, विधायक व पंचायत प्रतिनिधि समेत करीब 10 हजार लोग

प्रपत्र जी

रूचि के अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

नीमराणा में पुलिस और मजदूरों में टकराव से कई घायल

जयपुर, ८ जनवरी (भाषा)।

राजस्थान के नीमराणा में मंगलवार को हड़ताल कर रहे मजदुरों की पलिस से भिड़त हो गई। पुलिस का कहना है कि डायकिन कंपनी के मजदूरों ने कारखाने के मुख्यहार पर युनियन का झंडा लगाने और जबरन अंदर घुसने के प्रयास किया। पुलिस ने उग्र मजदुरों

को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

पुलिस के अनुसार इस घटनाक्रम में कुछ अधिकारियों सहित 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं श्रमिक संगठनों का कहना है कि बड़ी संख्या में घायल मजदुरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।अलवर जिले में स्थित नीमराणा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि उत्तेजित मजदूरों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसु गैस के 35 गोले छोड़े। मजदूरों की ओर से की गई पत्थरबाजी में पुलिस अधिकारियों सहित 22 पुलिस कर्मी घायल हो गए। त्रिपाठी ने बताया कि करीब 800 उत्तेजित मजदुरों ने डाइकिन कंपनी के परिसर में जबरन घुसने की कोशिश।

शाखा- बागपत रोड, मेरठ

सांकेतिक कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

कश्मीर में ठंड से थोड़ी राहत त्योरिटीजाइजेशन एवं रिक्सट्वशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समें

श्रीनगर, 8 जनवरी (भाषा)।

घाटी में रात को तापमान बढ़ने से लोगों को ठंड से राहत मिली, वहीं घाटी के कुछ स्थानों पर मंगलवार की सुबह हल्की बर्फबारी भी हुई। श्रीनगर में पारा शुन्य से नीचे 2.0 डिग्री र्सेल्सियस दर्ज

किया गया।

खाते का नाम व खाता सं0 मेसर्स श्वेता साई सतेंद्र कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह इंफ्राकॉन प्राइवेट श्वेता साई भवन शिव राम परम लिमिटेड हिटा रोड, मेरठ। 123-बी सैनिक विहार

के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

2533008700004114 दिनांक : 08-01-2019

ऋणी का नाम

बन्धक रखी गयी प्रापर्टी का विवरण दो मंजिला भवन तहरखाने के साथ, स्थित 16.10.2018 02.01.2019 एमपीएल नं 552 / 25–63–बी, श्वेता साई भवन, शिव राम पुरम, खसरा नंबर 72 का हिस्सा, गाँव औरंगशापुर, गोलाबढ, रोहटा

से ब्याज + अन्य खर्चे

तारीख को

69,16,358.10

रोड, मेरठ। क्षेत्रफल 255.67 वर्ग मीटर स्थान : मेरठ प्राधिकृत अधिकारी

नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुष्केद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित

ऋणी / ऋणियों / गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की प्राप्ति की

शरीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी / ऋणियों / गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर

ऋणी / ऋणियों / गारन्टरों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के

प्राथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति√ सम्पत्तियों का **सांकेतिक अधिग्रहण** कर

लेया है। ऋणी / ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति / सम्पत्तियों के

सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति / सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के च

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम) शाखाः अग्रवाल मंडी, बागपत (उ०प्र०)

उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।"

(अचल सम्पत्ति के लिए) (नियम-8(1))

फोन:- 0121-2279046, Email : bm0042@obc.co.in जबकि अधोहस्ताक्षरी **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों का पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) के सहपठित नियम (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाते के सामने उल्लेखित तिथि को बैंक द्वारा मांग सूचना जारी की गयी थी, जिसमें उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के अन्दर बकाये का भुगतान करने की मांग की गयी थी। ऋणी / बंधककर्ता / गारन्टर द्वारा राशि के चुकता न कर सकने पर एतद द्वारा ऋणी व आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के सहपठित नियम 8 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा निम्न वर्णित दिनांक को ले लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप से तथा आम जनता को सामान्य तौर पर सचेत किया जाता है कि वे इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के बारे में किसी प्रकार का सौदा नीचे लिखे राशि और ब्याज तथा अन्य खर्चों के लिये ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आरआरएल क्लर्टर, मेरठ के प्रभारों के अधीन होगा। "उधारकर्त्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए

7	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	की तिथि	की तिथि	बकाया राशि
सराय— बागपत (यूपी) — 250606 2. श्री इकबाल पुत्र रिफक — मौहल्ला नई बस्ती, पानी की टंकी के	मीहल्ला नई बस्ती, पानी की टंकी के सामने, अमीनगर सराय, बागपत—उ0प्र0। क्षेत्रफल 148.39 वर्ग मीटर। सम्पत्ति इकबाल पुत्र रफीक के नाम । बिक्री विलेख दस्तावेज संख्या 1218 – दिनांक 20. 02.2015। सीमाये :– पूर्वः श्री महेंद्र की कृषि भूमि,	26.10.2018		रू. 646058.55 + उस पर ब्याज व अन्य खर्वे
डी, अय्यूब खान, मकान सं0 165, उत्तरी बाजार, देवी गंज-1, अमीनगर सराय- बायपत (उ.प्र) - 250606 2. श्री नजमुदीन पुत्र फहीमुदीन मकान सं0 62, उत्तरी बाजार, देवी गंज, अमीनगर सराय- बायपत 3. श्रीमती नजमा पत्नि नईमुदीन	कस्वा— अमीनगर सराय बागपत — यूपी। क्षेत्रफल 435 वर्ग गज। सम्पत्ति फजलुद्दीन पुत्र अय्यूब खान और श्री नजमा पत्नि नईमुद्दीन और नजमुद्दीन पुत्र फहीमुद्दीन के नाम। बिक्री विलेख दस्तावेज संख्या 829 — दिनांक 27.02.1979। सीमायें:— पूर्वः इस्लाम का वर्तमान मकान, पश्चिमः रास्ता, उत्तरः आपथक,		07.01.2019	रू. 451629.00 + उस पर ब्याज व अन्य खर्च
डी, सिंह, मकान सं0 428, वार्ड सं0 9 मुख्य बाजार अमीनगर सराय- बागपत (उ.प्र.) —250606	मुख्य बाजार, अमीनगर सराय बागपत-यूपी। क्षेत्रफल 32.60 वर्गमीटर। सम्पत्ति सुरेंद्र पाल सिंह पुत्र मतन सिंह के नाम। बिक्री विलेख दस्तावेज संख्या4525, दिनांक 17.09.2002।सीमायें-पूर्वः कुसुम लता की दुकान और रास्ता, पश्चिमः लाला		07.01.2019	रू. 1188708.88 + उस पर ब्याज व अन्य खर्च
डी. श्री ऋषिपाल — वर्तमान में तपस्या नारी चेतना समूह, मकान संख्या 85 पट्टी — भरवानिया, अग्रवाल मंडी टटीरी, बागपत (उ.प्र.) — 250606 2. श्री उत्तम कुमार पुत्र ऋषि पाल सिंह (गारंटर) मकान सं0 85 पट्टी— भरवानिया, अग्रवाल मंडी	म्युनिसिपल पट्टी भरवानिया, अग्रवाल मंडी, टटीरी, बागपत – यूपी। क्षेत्रफल 75.80 वर्ग मीटर। सम्पत्ति उत्तम कुमार पुत्र ऋषिपाल सिंह के नाम। बिक्री विलेख दस्तावेज संख्या 1910 – दिनांक 11.03. 2011 सीमायें :– पर्व: ऋषिपाल का मकान और		07.01.2019	रू. 662150.00 + उस पर ब्याज व अन्य खर्चे
ऋणीः उत्तम चौधरी पुत्र ऋषिपात ही, सिंह, मकान सं० 85, पट्टी - भरवानिया, अग्रवाल मंदी टटीरी बागपत (यूपी) – 250601 2.श्री विवेक चौधरी पुत्र ऋषिपात सिंह, मकान सं० 85, पट्टी-	निगम मकान सं0 85, पट्टी भरवानिया, स्थित अग्रवाल मंडी, टटीरी, बागपत—यूपी। क्षेत्रफल 55. 90 वर्ग मीटर। सम्पत्ति विवेक चौधरी पुत्र ऋषिपाल सिंह के नाम। सीमायें:— पूर्व : तपस्या चौधरी का		07.01.2019	रू. 1225715.00 + उस पर ब्याज व अन्य खर्चे
*	सराय— बागपत (यूपी) — 250606 2. श्री इकबाल पुत्र रिफक — गौहल्ला नई बस्ती, पानी की टंकी के सामने, अमीनगर सराय, बागपत (उ.प्र.) ऋणीः 1. श्री फजलुदीन पुत्र श्री अय्यूब खान, मकान सं0 165, उत्तरी बाजार, देवी गंज—1, अमीनगर सराय— बागपत (उ.प्र) — 250606 2. श्री नजमुदीन पुत्र फहीमुदीन मकान सं0 62, उत्तरी बाजार, देवी गंज, अमीनगर सराय— बागपत 3. श्रीगती नजमा पिल नईमुदीन मकान सं0 62, उत्तरी बाजार— देवी गंज—1, अमीनगर सराय— बागपत ऋणीः 1. सुरेंद्र पाल सिंह पुत्र मतन सं0 62, वार्ब सं0 9 मुख्य बाजार अमीनगर सराय— बागपत उ.प्र.)—250606 2. मकान सं0 352, नेहरू नगर— मेरठ, यूपी ऋणीः 1. श्रीमती तपसी चौधरी पिल श्री ऋषिपाल — वर्तमान में तपस्य मेरठ, यूपी ऋणीः 1. श्रीमती तपसी चौधरी पिल श्री ऋषिपाल — वर्तमान में तपस्य कागपत (उ.प्र.)— 250606 2. श्री उत्तम कुमार पुत्र ऋषि पाल सिंह (गारंटर) मकान सं0 85, पट्टी— भरवानिया, अग्रवाल मंडी टटीरी, बागपत (उप्र)— 250601 ऋणीः उत्तम चौधरी पुत्र ऋषिपाल सेंह, मकान सं0 85, पट्टी— मरवानिया, अग्रवाल मंडी टटीरी, बागपत (यूपी)— 250601 ऋणीः उत्तम चौधरी पुत्र ऋषिपाल सेंह, मकान सं0 85, पट्टी— मरवानिया, अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत (यूपी)— 250601 2.श्री विवेक चौधरी पुत्र ऋषिपाल सिंह, मकान सं0 85, पट्टी— मरवानिया, अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत (यूपी)— 250601 2.श्री विवेक चौधरी पुत्र ऋषिपाल सिंह, मकान सं0 85, पट्टी— मरवानिया, अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत (यूपी)— 250601	सराय बागपत (यूपी) — 250606 2. श्री इकबाल पुत्र रिफक — गीहल्ला नई बरती, पानी की टंकी के सामने, अमीनगर सराय, बागपत (उ.प्र.) ब्रह्मी विलेख दरतावेज संख्या 1218 — दिनांक 20. 22015 सीमांच पुंद झी महेंद्र की कृषि भूमि, पश्चिमः भी शरीफ का प्लॉट. उत्तर: दिगर का मकान संठ 165, उत्तरी बाजार, देवी गंज—1, अमीनगर सराय— बागपत (उ.प्र.) — 250606 2. श्री नजमुरीन पुत्र फहीमुरीन मकान संठ 62, उत्तरी बाजार, देवी गंज—1, अमीनगर सराय— बागपत 3. श्रीमती नजमा पत्नि नईमुरीन, मकान संठ 62, उत्तरी बाजार, देवी गंज—1, अमीनगर सराय— बागपत 3. श्रीमती नजमा पत्नि नईमुरीन, मकान संठ 62, उत्तरी बाजार, देवी गंज—1, अमीनगर सराय— बागपत उ.प्र.) — 250606 2. मकान संठ 428, वार्ड संज संज मकान संठ 428, वार्ड संज मकान संठ 428, वार्ड संज मकान संठ 428, वार्ड संज मकान संठ संज मकान संज संज संज संज मकान संठ संज मकान संज संज संज संज संज संज स	ससाय— बागपत (यूपी)— 250606 2. श्री इकबाल पुत्र रिफेक ने मीडलला नई बस्ती, पानी की टंकी के सामने, अभीनगर सराय, बागपत (उ.प.) करणी: 1. श्री फजलुदीन पुत्र श्री सामने (उ.प.) मकान संक 10 165, उत्तरी बाजार, देवी गंज-1, अभीनगर सराय— बागपत (उ.प.)— 250606 2. श्री नंजमुदीन पुत्र फडीमुदीन मकान संक 16 2, उत्तरी बाजार, देवी गंज-1, अभीनगर सराय— बागपत (उ.प.)— 250606 3. श्रीमती नंजमा पत्रिन नईमुदीन और नजमुदीन पुत्र फडीमुदीन मकान संक 62, उत्तरी बाजार— देवी गंज-1, अभीनगर सराय— बागपत 3. श्रीमती नंजमा पत्रिन नईमुदीन और नजमुदीन पुत्र अर्थाय व्यापत— यूपी। क्षेत्रफल विकास का मकान संक 62, उत्तरी बाजार— देवी गंज-1, अभीनगर सराय— बागपत 3. श्रीमती नंजमा पत्रिन नईमुदीन, मकान संक 62, उत्तरी बाजार— देवी गंज-1, अभीनगर सराय— बागपत 3. श्रीमती नंजमा पत्रिन नईमुदीन, मकान संक 62, उत्तरी बाजार— देवी गंज-1, अभीनगर सराय— बागपत 3. श्रीमती नंजमा पत्रिक नंजमा संक प्रति पुत्र मत्तरी विकास वस्तावेज संख्या 829— दिनांक 27.02.1979। सीमाये— पूर्व इस्ताम का वर्तमान संक 62, उत्तरी बाजार— देवी गंज-1, अभीनगर सराय— बागपत 3. श्रीमती नंजमा संक प्रति पुत्र मत्तरी विकास वस्तावेज संख्या विकास वस्तावेज संख्या विकास वस्तावेज संख्या वापत— यूपी। क्षेत्रफल उटका विकास विकास वस्तावेज संख्या वापत— यूपी। क्षेत्रफल उटका वापति यूपी और नवन उत्तरी विकास वस्तावेज संख्या वापत— यूपी। क्षेत्रफल उटका वापति यूपी और नवन उत्तरी विकास वस्तावेज संख्या वापत— यूपी। क्षेत्रफल उटका वापति यूपी और नवन विकास व्यापत यूपी। क्षेत्रफल उटका वापति यूपी और नवन उत्तरी विकास वस्तावेज संख्या वापति यूपी और नवन विकास व्यापत यूपी। क्षेत्रफल उटका वापति यूपी क्षेत्रफल उटका वापति यूपी और नवन विकास वस्तावेज संख्या वापति यूपी और विकास वस्तावेज संख्या वापति यूपी क्षेत्रफल उटका वापति यूपी क्षेत्रफल विकास विकास वस्तावेज संख्या वापति यूपी विकास वस्तावेज संख्या वापति यूपी विकास वस्तावेज संख्या वापति यूपी विकास वस्तावेज संख्या विकास विकास वस्तावेज संख्या विकास विकास विकास विकास विक	सराय- बागपत (पूरी) - 250606 2. श्री इकबाल पुत्र रिफक ना महिल्ला नई बस्ती, पानी की टंकी के साभने, अमीनगर सराय, बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र अर्थी, स्वान्य (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र अर्थी, स्वान्य (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र फरीपूरीन मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र फरीपूरीन मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र फरीपूरीन मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र फरीपूरीन मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र फरीपूरीन मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र फरीपूरीन मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र फरीपूरीन मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र मुकान सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरी के स्वान्य सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरीन पुत्र मुकान सराय बागपत सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरी के स्वान्य सराय बागपत (उ.प्र.) - 250606 2. श्री नजजुरी के स्वान्य सराय क्यां के स्वान्य सराय का सराय क

दिनाक-08.01.2019

कार्पोरेशन बैंक

जोन कार्यालय – दिल्ली चत्तर, द्वितीय तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन नंबर 011-28754515, 28754542 ई-मेल आईडी : dlirec@corpbank.co.in वेबसाइट :yyyyy.corpbank.com

प्राधिकृत अधिकारी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

लुरक्षित मुख्य

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैं क

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना ई-जीवामी की तिथि : 12.02.2018

स्थानः मेरठ

ईएमडी तथा दस्तावेज जना करने की अंतिन तिथि 11.02.2018 थए. 5.00 बजे तक

11.46 पूर्वी. क्यों से अप. 1.15 क्ये तक बैंक में बंधक रखी गई अचल / चल सम्पत्ति की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन बिक्री। जबकि कार्पोरेशन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने हमारी शाखा में निप्नलिखित ऋण खातों में बैंक के बकाया की वसूली के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी की गई सूचना के अनुसरण में निप्नलिखित सम्पत्ति का कब्जा, उसको "जैसा है जहां है तथा जैसा है जो भी है आधार" पर वेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्तक्षरी द्वारा बिक्री वेबसाइट : https://bankauctions.in पर उपलब्ध कराए गए ई—नीलामीं प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल सम्पत्तियों का वर्णन

∌. ₹ Н.	कर्जदार और गारंटर का नाम	सम्पत्ति का वर्णन तथा स्वामी	दूराजारा पूर्व इंदमडी बोली दृद्धि राशि
	मिड कार्पोरेट शाखा, फोन नं. 0120-2511225, 2511224, 2517205 किसी सम्प्र मही जमा खाता विवरण – खाता नंबरः 050101601000660, खाता नाम : घा		
200	कर्जदार : मैसर्स अत-नफीस फोजन फूड एक्सपोर्टस प्रा. ति. ६, सेन्ट्रन तेन,	अवत सम्पत्ति सभी भू—भाग सहीत स्थित एम—18, एमआईडीसी, ततोजा इंडस्ट्रियत एरिया, नवी मुम्बई (प्तॉट एरिया : 5000 वर्ग मीटर सुपर	Rs. 12,69,00,000
	गारंटर : 1. मो. आतीफ कुरेशी, पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम 2. मो. नफीस कुरेशी पुत्र स्व. हाजी सिराजुद्दीन कुरेशी 3. मो. मोकीम कुरेशी पुत्र स्व. हाजी सिराजुद्दीन 4. मोहम्मद मुस्तकीन कुरेशी पुत्र स्व. हाजी सिराजुद्दीन 5. मो. मुसरफीन कुरेशी पुत्र स्व. हाजी सिराजुद्दीन 7. अस्हाम कुरेशी पुत्र मो. मुस्तकीन 8. श्रीमति तमकीन कोसर फर्नी मो. मुस्तकीम कुरेशी 9. अल—तमाश एक्सपोर्ट प्रा. ति. संवालक मो. मुस्तकीन कुरेशी 10. मैसर्स एम एस एम एण्ड कम्पनी पार्टनर 1. मोहम्मद मुस्तकीन कुरेशी 2. मोहम्मद मुसरफीन कुरेशी 3. मोहम्मद मुकीम कुरेशी एवं 4. मोहम्मद सतीम कुरेशी 11. मैसर्स प्रेस्टीज फुड एक्सपोर्ट पार्टनर 1. मोहम्मद मुस्तकीन कुरेशी 2. मोहम्मद मुसरफीन कुरेशी 3. मोहम्मद मुकीम कुरेशी एवं 4. मोहम्मद सतीम कुरेशी 5. व श्रीमति तमकीन कोसर मांग सूचना जारी करने की तिथि : 10.09.2018, बकाया राशि (प्रतिभूत प्रांतभूत जिस्में करने की तिथि : 10.09.2018, बकाया राशि (प्रतिभूत प्रांतभूत जारी करने की तिथि : 10.09.2018, बकाया राशि (प्रतिभूत प्रांतभूत जारी करने की तिथि : 10.09.2018, बकाया राशि (प्रतिभूत प्रांतभूत जारी करने की तिथि : 10.09.2018, बकाया राशि (प्रतिभूत प्रांतभूत जारी करने की तिथि : 10.09.2018, बकाया राशि (प्रतिभूत प्रांतभूत स्वांतभूत जारी करने की तिथि : 10.09.2018, बकाया राशि (प्रतिभूत प्रांतभूत स्वांतभूत स्वांतभूत जारी करने की तिथि : 10.09.2018, बकाया राशि (प्रतिभूत प्रांतभूत स्वांतभूत स		Rs. 1,26,90,000/-
200		उत्तरः सुमराज इंडस्ट्रियत यूनिट दक्षिणः मैसर्स अत—तमाश एक्सपोर्ट प्रा. ति. पूर्वः खेमा गांव पश्चिमः एमआईडीसी रोड मैसर्स प्रेस्टिज फड एक्सपोर्ट के स्वामित्व में	Rs. 1,00,000\-
- 4		अवन सम्पाल समा भू—भाग सहात स्थित एम—19, एमआइडासा, तनोजा इंडस्ट्रियन एरिया, नवी मुम्बई (प्नॉट एरिया : 5000 वर्ग मीटर सुपर संरवना निर्माण के साथ) बौहद्दी : उत्तर : प्रेस्टिज फूड एक्सपोर्ट दक्षिण : ग्रामीण सडक पूर्व : खेमा गांव	Rs. 14,17,00,000/
- 10			Rs. 1,41,70,000/-
# # *			Rs. 1,00,000V-

नियम एव शते : . ई—नीलामी "जैसा डै जडां डै" तथा "जैसा डै जो मी डै आघार" पर आयोजित की जा रही है ।

. सफल बोलीदाता को नीलामी के अंत में बिक्री की बोली उसके पक्ष में खत्म होने पर, बोली राशि की 🖄 प्रतिश्वत राशि, जिसमें पहले से प्राप्त बयाना राशि शामिल होगी, का तुस्त भुगतान करना होगा। और बिक्री की शेष राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि से 15 दिन के भीतर करना होगा। भगुतान आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के खाते में 27.02.2019 को अथवा पूर्व करना होगा। ऐसे भुगतान में चूक की स्थिति में सम्पत्ति दोबारा बेची जाएगी तथा चूककर्ता खरीददार को किसी भी प्रकार के दावे का कोई हक नहीं होगा और पहले भुगतान की जा चुकी राशि जब्त कर ली

3. किसी प्रकार की वैधानिकऔर अन्य देयलाएं चाहे वी उपार्जिल हों या उत्पन्न की गई हों, सम्पत्ति के खरीददार द्वारा वहन की जाएंगी ।

सम्पत्ति की नीलामी / बिक्री की जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई रह जाएगा, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जाएगी।

. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, सम्पत्ति / यों के स्वामित्व के बारे में स्वतंत्र रूप से जांच तथा निरीबण एवं अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए । सम्पत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी के साथ परामर्श के पश्चात पूर्वा. 10.30 बजे से अप. 5.00 बजे तक किया जा सकता है । 5. सफल बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि का तुरंत भुगतान करने में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई ईएमडी प्रतिभूत क्रेडिटर द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा स्वीकृत बोली स्वतः

6. इच्छुक बोलीदाता जो ईएमडी जमा कर चुके हैं तथा लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, खटा अपलोड करने, बोली प्रस्तुत करने, ई—बोलीदान प्रक्रिया में प्रशिक्षण में सहायता चाहते हैं। मैसर्स 4CLOSURE HELPLINE NO.040-23836405, श्री विकास 🛨 91-8142000809 Help Line E-mail Id: info@bankauctions.in, vikas@bankauctions.in । पर सम्पर्क करें तथा सम्पन्ति संबंधी

किसी पूछताछ के लिए शाखा प्रमुख से सम्पर्क कर सकते हैं । 7. आय कर नियम के अनुसार, सफल नीलामी क्रेंता को नीलामी मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर टीडीएस जमा करना होगा ।

तिथि : 07.01.2019, स्थान : दिल्ली

(विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया https://bankauctions.in, https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/al_nafees_frozen.pdf देखें)

सरफासी ऐक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत बिक्री हेतु 30 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदार / गारंटर को एतद्द्वारा उपरोक्त राशि अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों सहित, ई—नीलापी की तिथि से पहले चुकाने हेतु अधिसूचित किया जाता है, जिसमें असफल रहने पर

करेंगे परीक्षा पर चर्चा जनसत्ता ब्यूरो

NIMBUS

प्रधानमंत्री 29 जनवरी को

नई दिल्ली, 8 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दूसरी

अभिभावकों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान जीवन के विभिन्न आयामों पर भी बात करेंगे।बातचीत में देश और विदेश के प्रतिभागी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस दौरान एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके विजेताओं को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में कक्षा 9 से 12, स्नातक डिग्रीधारी, उनके शिक्षक और अभिभावक भाग ले सकते हैं। चुने गए प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बातचीत में भाग लेने का अवसर

अभिभावकों और शिक्षकों के आने-जाने, खाने-पीने का खर्च सरकार उठाएगी। स्कुली छात्रों के लिए प्रतियोगिताः

'मैं प्रेरित' प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों

मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ संदेशों को 29 जनवरी

को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में

दिखाया जाएगा। प्रतियोगिता में मायगोव

वेबसाइट या ऐप के माध्यम से भाग लिया

जा सकता है। विजेता विद्यार्थियों, उनके

को बताना होगा कि किताब 'एग्जाम वॉरियर्स' ने उन्हें किस तरह परीक्षा या जीवन को अलग तरह से देखने में मदद की। यह कोई मंत्र, अवधारणा या पुरी किताब हो सकती है। विद्यार्थियों की 'परीक्षा पे चर्चा' में इस साल बोर्ड की 'एग्जाम वॉरियर्स' में किसी स्थिति या परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और घटना के बारे में बताना है, जिसने उन्हें किसी स्थिति को अलग तरह से हल करने में सहायता की हो। विद्यार्थी 60 सेकंड का वीडियो या 500 शब्दों में अपनी बात लिखकर भेज सकते हैं।

कॉलेज छात्रों के लिए प्रतियोगिता : यह प्रतियोगिता कॉलेज में पढ़ने वाले 25 साल से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें उन्हें बताना है कि कैसे एग्जाम वॉरियर्स बन सकते हैं, जिससे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी प्रेरित हो सकें। विद्यार्थियों को 60 सेकंड के वीडियो या 500 शब्दों में सफलता के मंत्र बताने हैं।

शिक्षकों के लिए प्रतियोगिता : शिक्षक विद्यार्थियों को परीक्षा में सफल होने के मंत्र या तरीके बता सकते हैं। उन्हें अपनी बात 500 शब्दों में लिखकर भेजनी

अभिभावकों के लिए प्रतियोगिताः अभिभावकों को 500 शब्दों में बताना है कि उन्होंने अपने घर के एग्जाम वॉरियर्स से क्या सीखा।

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन, रिलिवेंट पार्टिकुर्लस बी लड़मी कॉटरिंग लिमिटेन 1 कार्पारेट देनदार का नाम पॉरेट देनदार के निगमन की तिथि कंपनियों के रजिस्टार - कानपर कार्योरेट देनदार की कार्योरेट पहचान L17122UP1988PLC009985 पंजीकृत कार्यालय : 19 / एक्स−1, क्ष्णापुरम कार्पोरेट येनदार के पंजीकृत कार्यालय लग्र प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता कानपुर, उत्तर प्रदेश-208007 कार्पोरेट कार्यालयः सी-40, संबदर-67, नोएसा 30-05-2018 09-01-2019 संहिता की बास 26(2)(एग) के तहत संका अवेदको के लिए पांचता यहा प्रपत्नका है। www.shrilakshmi.in 9 धारा २५ए के तहत सामू अक्षमता के मानदंड यहां www.shrilakshmi.in तियाकित प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 11 नावी शंकरूप आवेदकों की अध्यायी सूची जारी फरने 17-01-2019 (विस्तारित) 13 मात्री शकल्प आवेत्रको की अंतिम सूचि जात्री करने की 19-01-2019 (विस्तारित) 14 सूचना प्रापन जारी करने की तारीका मूल्यांकन रिट्रिक्स और सांभावित संकल्प आवेदको को संकल 15 संकल्प योजना, मूल्यांकन मेट्रिक्स, सूचना अनुरोध ई-मेल हा shrilakshmi @aaainsolvency.com ::: ब्रापन और आगे की जानकारी के लिए अनुरोध rohit.sehgal @aaainsolvency.com মন বিশ্বন प्राप्त करने का तीर तरीका पंक्तित को साध्य भेजा जाना चाहिए जो " संमायित समाधार प्राचेत्रक से अनुरोध" से शुरू बोता है 16 संकल्प योजना जमा करने की अंतिम तिथि 30-01-2019 (विस्तारित) लेक्ट्रांनिक माध्यम के लिए क्रम संबंध सामने हैं, में आई 1 भी गई हैं। एक ऑक्ट्रिका मीरिक प्रतिक्रिये भी एक फेलबंध शिकाफ में म्हणूत की या सकती है जिसमें विविध रक्करित हार्ज कारी और साम्य काफी एक पेन हुसून में 17 सकल्प आवेदको के लिए संकल्प योजना प्रस्तुल करने का तीर तरीका । शंख्या 21 के लागने वर्णित पत्ते पर केंग्रे जो ये से पहले या अतिम तिथि तक प्रश्नुच जाए। 18 अभियोजना प्रधिकरण को संकल्प ग्रीजना जम्म 11-02-2019 (विस्तारित) 19 रांकत्य पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/1095 20 बोर्ड के साथ पंजीकृत के रूप में संकल्प पेशेव-हेडिल सहगठ ताक्षतः सक्ष्मानः। १–604, सुजनं विद्यार्, सैक्टर–43, गुडगीव, हरियाणा, 122002, iamrs101@gmail.com का नाम पता और ई—मेल 21 संकल्प पेशेयर के साथ पत्राचार के लिए रूरतेमाल किया जाने वाला पता और ई--मेल -१०ए, कॅलाश कालोनी--११००४८ shrilakshmi@asainsolvency.com rohit.sehgal@aaainsolvency.com 22 आगे के विवरण उपलब्ध हैं या साथ ही उपलब्ध रोहित सहगल,

एएए इन्सोर्खेन्सी प्रोफेशनल्स एलएलपी -10ए, केलाश कालोमी--110048 shrilakshmi@aaainsolvency.com rohit.sehgal@aaainsolvency.com 09-01-2019

23 फॉर्म जी के प्रवतशन की तिथि IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-2018/10953 तिथि : 09.01.2019 ए-604, सुजन विहार, रीक्टर-43, गुडगाँव, हरियाणा, 122002. श्री लक्ष्मी कॉट्सिन लिमिटेड के लिए रथान : नई दिल्ली

(CIN: L74899DL1993PLC055470)

23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001

फोन : +91-11-42878900, फैक्स : +91-11-41500023

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 110 के प्रावधानों और इसी अधिनियम के लागू अन्य प्रावधानों, कम्पनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 22 (किसी भी वैधानिक संशोधन अथवा तदुनसार किसी नए अधिनियम सहित) के साथ पठित और लागू सेक्रेट्रियल मानकों के संदर्भ में, कम्पनी अपने सदस्यों की इलैक्ट्रानिक्स माध्यमों से मतदान (ई-वोटिंग) सहित डाक मतपत्र द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना चाहती है।

लि॰ (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

1. गैर सूची बद्ध 8 प्रतिशत नान कम्युलेटिव, नान कन्वर्टेबिल नान पार्टिसिपेटिंग प्रिफ्रेंस रूपए 10/- मूल्य वाले

मतदान समाप्तः गुरुवार, ७ फरवरी, २०१९ सायं ५ बजे तक

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 08 जनवरी, 2019

. एनएसडीएल द्वारा मतदान की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2019 को सायं 5 बजे के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग माडयूल

2. पूर्णतया भरे डाक मतपत्र परिवीक्षक के पास कार्य अवधि की समाप्ति अर्थात 7 फरवरी 2019 की सांय 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। 7 फरवरी 2019 के उपरांत प्राप्त होने वाले सभी डाक मतपत्रों को इस रूप में लिया जाएगा कि ऐसे

 निदेशक मंडल ने कम्पनी सचिव (सी पी 5458) श्री किपल देव विशष्ठ को डाक मतपत्र क्रिया के निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से निष्पादन हेतु परिवीक्षक नियुक्त किया है।

4. जिन सदस्यों को डाक मतपत्र प्रारूप प्राप्त नहीं हुए हों वे डुप्लीकेट डाक मतपत्र प्रारूप हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 1001–1006, 10वां तल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 को अनुरोध भेज सकते हैं। डाक मतपत्र सूचना व डाक मतपत्र प्रारूप वेबसाईटसः www.evoting.nsdl.com and

भौतिक अथवा डिमैटिरियलाईज्ड किसी भी अवस्था में कट-आफ तिथि अर्थात दिनांक 29.12.2018 को कम्पनी शेयर धारक सदस्य मतदान (डाक मतपत्र व ई-वोटिंग) की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति कट-आफ तिथि को

कट—आफ तिथि को शेयर धारण करने वाले जो व्यक्ति डाक मतपत्र के डिस्पैच के उपरांत कम्पनी के सदस्य बने हों,

तो सदस्य पासवर्ड जेनरेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com के होम पेज पर 'फोरगोट पासवर्ड' क्लिक कर सकते हैं और अपना फोलियो नं. या डीपी आईडी और पैन एंटर करें। कृपया ध्यान रखें कि ई-वोटिंग वेबसाईट पर 5 असफल प्रयासों के उपरांत लोग–इन बाधित हो जाएगा। अतः सही पासवर्ड की–इन करना सुनिश्चित करें।

किसी भी जानकारी के लिए https://www.evoting.nsdl.com के 'डाउनलोडस' सैक्शन पर उपलब्ध बार--बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) शेयर धारकों के लिए व शेयर धारकों के लिए ई--वोटिंग यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा मेल द्वारा एनएसडीएल से evoting@nsdl.co.in पर अथवा 1800222990 पर कॉल

कम्पनी सचिव व अनुपालन अधिकारी श्री ललित अग्रवाल से cs.lalit@nimbusgruoup.net पर की जा सकती है।

8. डाक मतपत्र का परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर 9 फरवरी 2019 को सायं 5 बजे कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा, अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा घोषित किया जाएगा। परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाएगा, कम्पनी के शेयर जिन स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं उन्हें सूचित किया जाएगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा और कम्पनी की वेबसाईट www.nimbusprojectsltd.com पर परिवीक्षक की रिपोर्ट सहित प्रदर्शित किया जाएगा।

> निदेशक मंडल की आज्ञा से कृते निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ललित अग्रवाल कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. एफ5902

स प्रयागराज तक गंगा में गिरने वाले नाले बंद

जनसत्ता संवाददाता देहरादून, ८ जनवरी।

प्रयागराज कुंभ मेले के लिए गंगोत्री से लेकर इलाहाबाद तक गंगा में गिर रहे ज्यादातर नालों को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के टिहरी बांध और हरिद्वार के भीमगोडा बैराज से दस हजार क्युसेक जल गंगा की मुख्यधारा में छोड़ा जाएगा। इससे कुंभ मेले में आने वाले साधु-संतो व श्रद्धालुओं को शाही स्नानों और अन्य पर्वों में डुबकी लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गंगाजल मिल सकेगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज के गेस्ट हाउस में मंगलवार को दी।

पत्रकारों से बात करने से पहले सिंचाई मंत्री ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग मध्य गंगा के आलाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार प्रयागराज कुंभ मेले में कमर तक गंगाजल देने का फैसला लिया गया है। प्रयागराज कुंभ के पहले शाही स्नान 15 जनवरी से लेकर मार्च में आखिरी स्नान तक गंगा में भरपूर मात्रा में जल रहेगा। इससे कुंभ के पिछले स्नानों के मुकाबले गंगा में ज्यादा निर्मल, अविरल और स्वच्छ जल रहेगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले प्रयागराज मैं लगने वाले कुंभ मेलों में श्रद्धालुओं के घुटनों तक ही पानी

रहता था। ाऽ जनवरी को कुंभ का पहला शाही स्नान होगा। उन्होंने कहा कि इस बार प्रयागराज में अर्द्धकुंभ है, पर मेले को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए राज्य सरकार ने इसे कुंभ मेले का नाम दिया है।

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 1001-1006, 10वां तल, नारायण मंजिल, ईमेल : nimbusindialtd@gmail.com वेबसाईट : www.nimbusprojectsltd.com

डाक मतपत्र सूचना

कम्पनी ने अपने सभी शेयर धारकों को रिमोट से ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपाजिटरी

कम्पनी ने निम्न कार्य निष्पादन हेतु, जिसका डाक मतपत्र सूचना में भी उल्लेख है, डाक मतपत्रों की डाक मतपत्र प्रारूप और स्वयं का पता लिखा डाक व्ययं चुकता लिफाफे सहित सूचना व व्याख्यात्मक विवरण दिनांकित 28.12.2018 कट-आफ तिथि 29.12.2018 के अनुसार सभी सदस्यों को 7 जनवरी 2019 को स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा गया है।

20,000,000 शेयरों के अधिकार/शर्तों में परिवर्तन

ई-वोटिंग सहित डाक मतपत्र द्वारा मताधिकार के इस्तेमाल की सुविधा निम्न अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

मतदान प्रारम्भः बुधवार, १ जनवरी, २०११ प्रातः १ बजे से

सदस्यों के संज्ञान में लाया जाता है:-

सदस्यों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

www.nimbusprojectsItd.com पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी का सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल सूचना भर समझे।

वे निम्न तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

अ. यदि सदस्य का ई–मेल पता अथवा मोबाईल नं., फोलियो नं. या डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी के विपरीत पंजीकृत है

इलैक्ट्रानिक्स माध्यम से मतदान सहित डाक मतपत्र द्वारा वोटिंग से सम्बन्धित कोई भी जानकारी/शिकायत कम्पनी के